



A Navratna CPSE

एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NBCC (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Ref. No.: NBCC/BS/BSENSE/2021-22

September 08, 2021

| | |
|---|--|
| National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1,G Block Bandra -Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051 NSE Symbol: NBCC/EQ | BSE Limited, Floor 25 ,Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001 Scrip Code: 534309 |
|---|--|

Sub: Public Notice of NBCC's 61st Annual General Meeting through VC/OAVM and related e-Voting Information.

Sir,

This to inform that, newspaper advertisement of Public Notice of NBCC's 61st Annual General Meeting (AGM) dated September 30, 2021 and related e-Voting information as published in English and Hindi newspapers on September 8, 2021, are enclosed herewith.

The aforesaid information is also available on the website of the Company at <https://www.nbccindia.com/webEnglish/announcementNotices>

This is for information and record.

Thanking You

Yours Sincerely,
For **NBCC (India) Limited**



Deepti Gambhir
Company Secretary
F-4984

Encl: As above



TENNECO

FEDERAL-MOGUL ANAND SEALINGS INDIA LIMITED

CIN: L29253PN2014PLC162540

Registered Office: 152/222, Village Mahalunge, Chakan Talagona, Road, Tal. Khed, Pune-410501
Tel: +91 2135 677300, Fax: +91 2135 677308 E-mail: abhishek.nagar@tenneco.com

NOTICE

The 7th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 30th September 2021, at 03:00 PM at the Registered Office of the Company at 152/222, Mahalunge, Chakan Talagona Road, Tal. Khed, Dist. Pune, 410501, to transact the businesses mentioned in the 7th AGM notice dated 2nd September 2021. The Notice along with instructions for remote voting, attendance slip and proxy form and Annual Report for the financial year 2020-21 has been sent through electronic mode to all members whose email IDs are registered with the Company Depository participants.

As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, the 7th Annual General Meeting, may be transacted through such voting. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from the place other than Annual General Meeting (remote voting) will be provided by M/s KFin Technologies Private Limited (KFINTECH).

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said rules are given hereunder:

- The Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of the 7th Annual General Meeting may be transacted through electronic voting.
- The remote e-voting shall begin on Monday, 27th September, 2021 at 09:00 AM and end on Wednesday 29th September, 2021 at 05:00 PM. The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Wednesday, 29th September 2021.
- The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the 7th AGM is Thursday, 23rd September, 2021. Members whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or at the 7th Annual General Meeting through ballot paper.
- The Members who have acquired shares and become members of the Company after despatch of Notice and holding shares on the cut off date, i.e. 23rd September, 2021 may obtain LOGIN and PASSWORD by sending a request at custid@kfintech.com or call on toll free no. 18004545001. However if you are already registered with KFin Technologies Private Limited (KFINTECH) for remote voting then members may use your existing user ID and PASSWORD for casting your vote through remote e-voting.
- The facility for voting through ballot shall be made available at the 7th Annual General Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot papers.
- Notice of 7th Annual General Meeting is available on the website of KFin Technologies Private Limited (KFINTECH) i.e. www.kfintech.com.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.kfintech.com or write an email to custid@kfintech.com or inward@kfintech.com.
- The members may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

For Federal-Mogul Anand Sealings India Ltd
Sd/-
Manish Chaudhary
Director
Place: Pune
Date: 08 September 2021

MAGELLANIC CLOUD LIMITED

(Formerly known as South India Projects Limited)

CIN: L72100MH1981PLC339895

Regd. Office: 401, Viceroy Royal, Shankar Lane, Kandivelli (West), Mumbai-400 067, Maharashtra, India
Tel No. 8652883310 Email: compliance@magellanic-cloud.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

1. Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Company (AGM) will be convened on Tuesday, 28th September, 2021 at 10:00 a.m. (IST) through Video Conferencing or OAVM in accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular no. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19", circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 in relation to "Clarification on holding of annual general meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM)" and Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 in relation to "Clarification (VC) or other audio-visual means (OAVM)" and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 in relation to "Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 due to the COVID-19 pandemic" (collectively referred to as "SEBI Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 in relation to "Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 due to the COVID-19 pandemic" (collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the 40th AGM. The Annual Report 2020-21, containing the Notice of Annual General Meeting as well as the details of the businesses to be transacted at the AGM, is being dispatched through electronic mode by the Company on 4th September, 2021 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

2. The Notice of the 40th AGM and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 along with login details of joining the 40th AGM will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or its Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participants in accordance with MCA Circulars and SEBI Circular. Members can join and participate in the 40th AGM through the VC/OAVM facility only. The instruction for joining the 40th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 40th AGM are provided in the Notice of the 40th AGM. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 40th AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.magellanic-cloud.com and on the website of Stock Exchange (i.e. BSE) and on the website of CDSL.

3. Members whose email addresses are not registered with depositories can register the same for obtaining the login credentials for e-voting for the resolution proposed in the Notice of 40th AGM in the following manner:

- For Physical shareholders: Please provide necessary details like Folio No., Name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to compliance@magellanic-cloud.com.
- For Demat Shareholders: Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company email id: compliance@magellanic-cloud.com.

Please note: In order to register your email address permanently, the Members are requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository, through the concerned Depository Participants.

iii. The Company/RTA shall coordinate with the depositories and provide the login credentials to the above mentioned shareholders.

4. The Members are requested to refer the AGM notice, for instructions for attending the AGM through VC/OAVM.

5. **Remote e-Voting:** In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following: a. The remote e-voting facility shall commence on Saturday, September 25, 2021 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 27, 2021 (5:00 p.m. IST). b. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date i.e. September 21, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM.

5. **Book Closure:** The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (both days inclusive).

6. In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting and attending of AGM, shareholders may get in touch with the following:

Mr. Sanjay Chouhan
(Chief Financial Officer)
At: compliance@magellanic-cloud.com
Date: 05.09.2021
Place: Mumbai

For Magellanic Cloud Limited
Sd/-
(Jagan Mohan Reddy Thumma)
(Managing Director)

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN: L74899DL1960G0003335

Registered Office: NBCC Bhawan, Lodi Road, New Delhi-110003
(CIN: L74899DL1960G0003335)
Tel: 011-24367344-18, 43594555 (EPABX) Fax: 91-11-24366995
Email: co.sect@nbccindia.com, Website: www.nbccindia.com

NBCC's 61st Annual General Meeting and E-Voting Information

In view of prevailing Covid-19 pandemic and as per MCA and SEBI circulars regarding holding of AGM through VC/OAVM, notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the members of NBCC (India) Limited would be held on Thursday, September 30, 2021 at 2:00 PM IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the notice.

Notice of AGM along with Annual Report 2020-21 would be sent only through electronic mode to those shareholders whose e-mail addresses are registered with Depositories/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) and would also be available on the Company's website at www.nbccindia.com and the website of the stock exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com.

Further, the Company has fixed Thursday, September 23, 2021 as record date to determine the eligibility of shareholders, for final dividend of Rs. 0.47 (i.e. 47%) per paid up equity Share of Rs.1/- each for the financial year 2020-21 subject to approval of the shareholders in 61st AGM. Final Dividend on equity shares if declared at the AGM will be paid within 30 days of its declaration.

Members may further note that the Income Tax Act, 1961, (the "IT Act") as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a company after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of final dividend.

To claim exemption from deduction of tax at source including deduction at concessional rates, shareholders are required to submit the requisite documents as prescribed under Income Tax Act, 1961 and as mentioned in the Notice of 61st AGM at dividend.tax@nbccindia.com only, on or before Tuesday, September 28, 2021. No communication on tax determination/deduction shall be entertained after September 28, 2021.

Further, the Company is pleased to provide e-voting facility through CDSL to all the eligible shareholders, i.e. those members whose names appear on the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021 as beneficial owners in the records of NSDL and CDSL. In respect of dematerialized shares and whose names would appear as Members in the Register of Members of the Company in case of physical shares.

The voting period would begin on Monday, September 27, 2021 (9:00 a.m. IST) and end on Wednesday, September 29, 2021 (5:00 p.m. IST). Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Depositories/RTA may cast their votes through remote e-voting or through e-voting system during the meeting and shareholders are requested to refer the instructions for e-voting given in the AGM Notice.

Members who have not registered their e-mail addresses so far or want to change it, are requested to register/change the same with their Depository Participant/RTA, so as to receive all the communications electronically.

To avail the NACH facility, i.e. Direct credit of dividend amount in the bank account, members are requested to update the bank details with their depository participant. Members who would like to ask questions during the AGM, may send their questions or may register themselves as a speaker by sending a request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number and mobile number at investor.agm@nbccindia.com, not later than 5:00 p.m. IST, Thursday, September 23, 2021. The Company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of time at the AGM.

For NBCC (India) Limited
Sd/-
Deepthi Gambhir
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: September 7, 2021

NARAYANI STEELS LIMITED

LGB FORGE LIMITED

Regd Office 6/16/13, Krishnarayapuram Road, Ganapathy Post, Coimbatore - 641 006

CIN: L27310TZ2006PLC012830

Website: www.lgbforge.com, Email: secretarial@lgbforge.com Tel: +91 0422 2535325

NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday the 30th September 2021 at 03:30 PM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars Issued in April / May 2020 and January 2021 ("Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the businesses as set out in the Notice of AGM dated 12.08.2021.

In compliance with the circulars, the Notice of AGM and Annual Report have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company viz., www.lgbforge.com and also on the website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency for providing the Remote e-Voting-Voting at the AGM) i.e. www.evotingindia.com. The Company has completed despatch of the notice of AGM and Annual Report through e-mails on 06.09.2021.

Those members holding shares in physical form, whose e-mail addresses are not registered with the Company, may register their e-mail address by sending scanned copy of a signed request letter mentioning their name, folio number, complete address, email address to be registered, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN; and self-attested scanned copy of Driving Licence / Passport / Bank Statement / AADHAR, supporting the registered address of the Member by e-mail to secretarial@lgbforge.com for obtaining copy of the Annual Report and Notice of AGM. Members holding shares in demat form can update their e-mail address with their Depository Participant(s).

Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (September 23, 2021) may cast their vote electronically on each item of the businesses as set forth in the Notice of 15th AGM through the electronic voting system on CDSL (remote e-Voting) or e-Voting at the AGM.

All the members are informed that:

- The ordinary and special businesses as set out in the Notice of AGM shall be transacted through remote e-Voting or e-Voting system at the AGM.
- The remote e-Voting shall commence at 9.00 AM (IST) on Monday, September 27, 2021.
- The remote e-Voting shall end at 5.00 PM (IST) on Wednesday, September 29, 2021.
- Remote e-Voting shall not be allowed beyond 5.00 PM (IST) on Wednesday, September 29, 2021.
- The remote e-Voting module shall be disabled for voting after the date and time mentioned above. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

For NBCC (India) Limited
Sd/-
Deepthi Gambhir
Company Secretary



एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन-74899DL1960GO003335

पंजीकृत कार्यालय: एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-24367314-18, 43591555 (ईपीएवीएक्स), फैक्स: 91-11-24366995
ई-मेल: co.sectt@nbccindia.com, वेबसाइट: www.nbccindia.com

एनबीसीसी की 61वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग सूचना

वर्तमान कोविड-19 महामारी के चलते तथा वीसी/ओपीएम माध्यम से एजीएम आयोजित कराने के संबंध में एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुसरण में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की 61वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 2.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओपीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरीज/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं और यह कंपनी की वेबसाइट www.nbccindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, कंपनी ने 61वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु. 1/- प्रत्येक के प्रति प्रदत्त इविटरी शेयर पर रु. 0.47 (अर्थात् 47 प्रतिशत) अंतिम लामांश हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 को रिकार्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

सदस्यगण कृपया नोट करें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में यह अधिदेश है कि 1 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किया जाने वाला लामांश सदस्यों को करयोग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लामांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित एवं 61वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार छूट दरों पर कटौती सहित स्रोत पर कर कटौती से छूट का दावा करने के लिए शेयरधारकों को मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 तक या उससे पूर्व dividend.tax@nbccindia.com पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने होंगे। 28 सितंबर, 2021 के बाद कर निर्धारण/कटौती से संबंधित किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, कंपनी उन सभी पत्र शेयरधारकों अर्थात् ऐसे सदस्यगण जिनका नाम अंतिम तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 को डिमेंट्रियलाइज्ड शेयरों के संबंध में एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के रिकार्ड में लामार्थी स्वामी तथा भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार में सदस्य के रूप में शामिल होगा, उन्हें सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

वोटिंग अवधि सोमवार, 27 सितंबर, 2021 (प्रातः 9.00 बजे) (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 29 सितंबर, 2021 (सायं 5.00 बजे) (आईएसटी) बंद होगी। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या ऐसे सदस्यगण जिन्होंने डिपॉजिटरी/आरटीए के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं तथा शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एजीएम सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करें।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या जो अपना ई-मेल पता बदलना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/आरटीए के पास पंजीकृत/बदलाव कराए जिससे कि वे सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कर सकें। एनएसडीएल सुविधा अर्थात् लामांश राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना बैंक खाता विवरण अपडेट कराएं।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, वह अपना नाम, डीपी आईडी एवं क्लॉक आईडी/फोलियो नम्बर एवं मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल से अनुरोध भेजकर अपने प्रश्न भेजने या स्वीकार के रूप में स्वयं का पंजीकरण कराने के लिए बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक ई-मेल investor.agm@nbccindia.com पर मेल भेज सकते हैं। कंपनी के पास एजीएम में समय की उपलब्धता के अनुसार प्रश्न पूछने वाले सदस्यों की संख्या का सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 सितंबर, 2021

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
दीप्ति मधीर
कंपनी सचिव

फॉर्म-जी (अभिलेख की अभिव्यक्ति और अन्य संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा के विस्तार के लिए)
अभिलेख की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमवाली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

| संबंधित विवरण | |
|--|---|
| 1. कॉरपोरेट देनदार का नाम | पीयूष आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि | जून 22, 2011 |
| 3. उस ऑर्थोरिटी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज - दिल्ली |
| 4. कॉरपोरेट देनदार की कॉरपोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या | U70102DL2011PTC221242 |
| 5. कॉरपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता | प्लॉट नं. 14, भूतल, पुल पेहलाव पुर, डीडीए एमआईजी, सुजान अपार्टमेंट्स, नई दिल्ली -110044, भारत |



बजाज हाउसिंग फाइनेंस

कॉर्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क, बी2 बिल्डिंग, 5वीं तल, शाखा कार्यालय : 14वां तल, कार्यालय नं. 1451, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, 13(2) के तहत मॉड सुचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 के तहत मॉड सुचना

मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अग्रहस्ताक्षर सूचना देता है जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उन्हें सम्पत्ति के विरुद्ध गृह ऋण के पुनर्भुगतान में अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं और परिणामस्वरूप (एन.पी.ए.) में परिवर्तित हो गये हैं। तदनुसार, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्भुगतान 2002 एवं उसके नियमों के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पते पर उन्हें सूचनाएँ जारी गयी थीं। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को एतद्वारा इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से समय-समय बकाया राशि/अंदा करने के लिए अवगत/सूचित किया जाता है।

| ऋण खाता सं./ कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) /जमानती(यों) के नाम तथा पता | प्रतिभूत/बैंक/जाने |
|---|--|
| शाखा : दिल्ली लैन : 401ZLT96748758 तथा 401ZLT96752472 कर्जदार/सह-कर्जदार 1. अजय कुमार (कर्जदार) मकान नं. 2686 ए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 3, बल्लभगढ़ हरियाणा फरीदाबाद- 121004 2. कल्पना अग्रवाल (सह-कर्जदार) मकान नं. 2686 ए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 3, बल्लभगढ़ हरियाणा फरीदाबाद- 121004 3. मैक्स एन्टरप्राइजेज (सह-कर्जदार) (इसके प्रोपराइटर/अधिकृत हस्ताक्षर/प्रबंध निदेशक के माध्यम से) मकान नं. 2686 ए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 3, बल्लभगढ़ हरियाणा फरीदाबाद- 121004 | नीचे वर्णित मैसर्स एलआईजी फ्री हाउसिंग बोर्ड फरीदाबाद |
| शाखा : दिल्ली लैन : 401LHS69551263 कर्जदार/सह-कर्जदार 1. भगत सिंह (कर्जदार) सी/51, द्वारकाधीस हाइट्स, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा-123106 | नीचे वर्णित मैसर्स मकान नं. 43 जी.बी. नगर, 201308 पूर्व प्लॉट नं. 43 रोड |
| शाखा : चित्तौड़गढ़ लैन : H5E4HLP0409074 तथा H5E4LPT041F932 कर्जदार/सह-कर्जदार 1. भवतरलाल बलाई (कर्जदार) (मृतक होने से विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से) हिगोरीया, कपासन, राजस्थान - 312202 2. लीला देवी (सह-कर्जदार) 174, भरमानों का मोहल्ला, हिगोरीया, कपासन, राजस्थान, 312202 | नीचे वर्णित मैसर्स पट्टा नं. 07 जी.पी. हिगोरीया चित्तौड़गढ़ - उत्तर : लीला देवी पूर्व : कॉमन दक्षिण : रक्त शंकर/बंसीलाल लाल/सत्यनारायण |
| शाखा : नोएडा लैन : 582HSL95911777 एवं 582TSH96000370 कर्जदार/सह-कर्जदार 1. भूपेन्द्र सिंह (कर्जदार) 25-ए, डी.डी.ए. प्लैट्स, निकट कम्युनिटी सेंटर, मानसरोवर पार्क, शाहदरा ईस्ट, दिल्ली- 110032 | नीचे वर्णित मैसर्स प्लॉट नं. 190 सिक्का कामान जीएच 103 व 201307 |
| शाखा : दिल्ली लैन : H401HLP0240495 एवं H401LPT0244156 कर्जदार/सह-कर्जदार 1. सी. राजेश्वरन (कर्जदार) डी-1/43ए डी-1 ब्लॉक, विनोद पुरी, विजय एन्कलेव, नसीरपुर, दिल्ली-110045 2. आर. शान्ति (सह-कर्जदार) डी-1/43ए डी-1 ब्लॉक, विनोद पुरी, विजय एन्कलेव, नसीरपुर, दिल्ली-110045 | नीचे वर्णित मैसर्स सम्पत्ति सं. 004 अपर ग्राउण्ड निजी सं. 004 नॉर्दर्न ईस्टर्न दिल्ली-11005 पश्चिम : अनफोट चौड़ी दाहिनी |
| शाखा : गाजियाबाद लैन : 581ZLF0102159084 कर्जदार/सह-कर्जदार 1. देवेन्द्र कुमार जैन (कर्जदार) | नीचे वर्णित मैसर्स प्लॉट नं. 1/25 शाहदरा दिल्ली पूर्व : रोड फ्री |